

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 19 जनवरी 2023

प्रश्न -1

किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को तीन श्रीलंकाई बैंकों के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?

- A) भारतीय स्टेट बैंक
- B) केनरा बैंक
- C) पंजाब नेशनल बैंक
- D) इंडियन बैंक

सही उत्तर: D

इंडियन बैंक को श्रीलंका से तीन बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नियामक मंजूरी मिल गई है। स्थानीय मुद्रा में वोस्ट्रो खाते से श्रीलंका को डॉलर की घटती आपूर्ति में गिरावट के बिना भारत से आयात करने की अनुमति मिल जाएगी।

प्रश्न-2

फिल्म RRR के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत "नाटू नाटू" की रचना किसने की?

- A) राहुल सिपलीगंज
- B) चंद्रबोस
- C) ए.आर. रहमान
- D) एम.एम. कीरवानी

सही उत्तर: D

जूनियर एन.टी.आर और राम चरण अभिनीत RRR के गीत नाटू नाटू जिसे एम.एम. कीरवानी द्वारा रचित किया गया था, ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब 2023 पुरस्कार जीता।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 19 जनवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था?

- A) ट्रेविस हेड
- B) सूर्यकुमार यादव
- C) हैरी ब्रुक
- D) बाबर आजम

सही उत्तर: C

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक को दिसंबर 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया। इस 23 वर्षीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की 3-0 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी और तीन मैचों में 468 रन बनाकर श्रृंखला का अंत सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में किया था।

प्रश्न-4

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है ?

- A) दिल्ली
- B) गाजियाबाद
- C) गुरुग्राम
- D) पटना

सही उत्तर: A

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2022 में PM2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से दोगुने से अधिक और तीसरे उच्चतम औसत PM10 सांद्रता के साथ दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 19 जनवरी 2023

प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किस देश की एश्ले गार्डनर ने दिसंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता?

- A) दक्षिण अफ्रीका
- B) न्यूजीलैंड
- C) इंग्लैंड
- D) ऑस्ट्रेलिया

सही उत्तर: D

ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने दिसंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार हासिल किया क्योंकि बल्ले और गेंद से उनके योगदान ने उनकी टीम को भारत में टी20 श्रृंखला जीतने में मदद की, और उन्हें ऑलराउंडरों के लिए खिलाड़ी रैंकिंग के शिखर पर पहुंचाया।

प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था?

- A) केविन मैकार्थी
- B) लॉरेन बोएबर्ट
- C) मिच मैककॉनेल
- D) नैन्सी पेलोसी

सही उत्तर: A

रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया है। विभाजित रिपब्लिकन ने स्पीकर चुनने के लिए चार दिनों में 15 राउंड मतदान किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 19 जनवरी 2023

प्रश्न-7

किस निम्नलिखित राज्य /केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र 2024 में यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है?

- A) आंध्र प्रदेश
- B) गुजरात
- C) जम्मू और कश्मीर
- D) ओडिशा

सही उत्तर: D

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएगा।

प्रश्न-8

जम्मू में भारतीय सेना के लिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लो-स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है?

- A) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- B) तेल और प्राकृतिक गैस निगम
- C) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
- D) हिंदुस्तान पेट्रोलियम

सही उत्तर: A

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने उच्च ऊंचाई पर काम करने वाली भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की, जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 19 जनवरी 2023

प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोलो प्लेयर की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है?

- A) असम
- B) मणिपुर
- C) त्रिपुरा
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: B

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर के पूर्वी इंफाल जिले के मारजिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में टट्टू पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। मणिपुर को खेल का जन्मस्थान माना जाता है।

प्रश्न-10

निम्नलिखित किस राज्य में पारंपरिक छेरछेरात्योहार मनाया गया था?

- A) असम
- B) कर्नाटक
- C) छत्तीसगढ़
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: C

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दुधाधारी मठ में 6 जनवरी को पारंपरिक छेरछेराउत्सव मनाया गया। पारंपरिक छेरछेरात्योहार 'पौष' हिंदू कैलेंडर महीने की पूर्णिमा की रात को खेती के बाद फसलों को अपने घरों में ले जाने की खुशी में मनाया जाता है।